

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2020—माघ 11, शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2020 (माघ 11, 1941)

विधान सभा सदस्य के निधन की सूचना

क्र. 1749-वि.स.-विधान-2020.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-आगर (अ.जा.) जिला-आगर-मालवा से निर्वाचित सदस्य, श्री मनोहर ऊंटवाल का दिनांक 30 जनवरी 2020 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.